

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 24 जनवरी 2023

प्रश्न -1

निम्नलिखित में से किस बैंक ने आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (ABHICL) के साथ बैंकएश्योरेंस साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं?

- A) बैंक ऑफ इंडिया
- B) केनरा बैंक
- C) पंजाब एंड सिंध बैंक
- D) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

सही उत्तर: C

आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड (ABCL) के स्वास्थ्य बीमा संयुक्त उद्यम आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (ABHICL) ने पूरे भारत में बैंक की शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के वितरण के लिए पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ एक बैंकएश्योरेंस साझेदारी पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है।

प्रश्न-2

निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में 'AgriSAT-1 /ZA 008' नामक दुनिया का पहला कृषि-केंद्रित उपग्रह लॉन्च किया है?

- A) ऑस्ट्रेलिया
- B) रूस
- C) दक्षिण अफ्रीका
- D) USA

सही उत्तर: C

दक्षिण अफ्रीकी कंपनी ड्रैगनफ्लाइ एयरोस्पेस ने स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट पर 'AgriSAT-1 /ZA 008' नामक उपग्रह लॉन्च किया है। दक्षिण अफ्रीकी अंतरिक्ष मामलों के परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि दुनिया के पहले कृषि केंद्रित उपग्रह के सफल प्रक्षेपण से 10 करोड़ डॉलर से अधिक का राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 24 जनवरी 2023

प्रश्न-3

निम्नलिखित में से किस भुगतान बैंक को हाल ही में भारत बिल भुगतान परिचालन इकाई (BBPOU) के रूप में संचालित करने के लिए RBI की मंजूरी मिली है?

- A) एयरटेल पेमेंट्स बैंक
- B) फिनो पेमेंट्स बैंक
- C) इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक
- D) पेटीएम पेमेंट्स बैंक

सही उत्तर: D

पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने हाल ही में घोषणा की है कि उसे भारत बिल भुगतान परिचालन इकाई (BBPOU) के रूप में काम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अंतिम मंजूरी मिल गई है।

प्रश्न-4

निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है?

- A) ऑस्ट्रेलिया
- B) चीन
- C) जापान
- D) रूस

सही उत्तर: D

अप्रैल-दिसंबर की अवधि के दौरान देश से आयात पांच गुना बढ़कर 32.9 अरब डॉलर होने के साथ रूस भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। रूस से भारत के अधिक आयात में दो मुख्य योगदानकर्ता हैं - कच्चा तेल और उर्वरक।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 24 जनवरी 2023

प्रश्न-5

किसानों को कम ब्याज दर वाले ऋण प्राप्त करने में मदद करने के लिए , निम्नलिखित में से किस बैंक ने भंडारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण(WDRA) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं?

- A) बैंक ऑफ बड़ोदा
- B) बैंक ऑफ इंडिया
- C) भारतीय स्टेट बैंक
- D) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

सही उत्तर: C

किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करने में सुविधा के लिए , भंडारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण(WDRA) ने एक कार्यक्रम में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य भारत में कृषि वित्त में सुधार के लिए आउटरीच गतिविधियों को आगे बढ़ाने के अलावा जमाकर्ताओं को लाभों की जानकारी प्रदान करना है।

प्रश्न-6

'राइट टू साइट' के उद्देश्य से, किस निम्नलिखित राज्य सरकार ने हाल ही में अंधतानियंत्रण नीति लागू की है?

- A) पश्चिम बंगाल
- B) राजस्थान
- C) मध्य प्रदेश
- D) गुजरात

सही उत्तर: B

देश में पहली बार राजस्थान सरकार ने 'राइट टू साइट' के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण नीति लागू की है। यह नीति राज्य में दृष्टि दोष से पीड़ित तीन लाख से अधिक लोगों के जीवन में प्रकाश लाने के उद्देश्य से पेश की गई है।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 24 जनवरी 2023

प्रश्न-7

निम्नलिखित में से किसने हाल ही में नई दिल्ली में जियोस्पेशियल हैकाथॉन लॉन्च किया?

- A) अनुराग ठाकुर
- B) जितेंद्र सिंह
- C) जितिन प्रसाद
- D) मनसुख मंडाविया

सही उत्तर: B

केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, जितेंद्र सिंह ने हाल ही में नई दिल्ली में जियोस्पेशियल हैकाथॉन लॉन्च किया। डॉ. सिंह ने कहा कि हैकाथॉन का उद्देश्य न केवल सार्वजनिक और निजी भू-स्थानिक क्षेत्रों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देना है, बल्कि देश के भू-स्थानिक स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र को भी मजबूत करना है।

प्रश्न-8

निम्नलिखित में से कौन हाल ही में ODI क्रिकेट के इतिहास में पांचवें सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बने?

- A) सूर्यकुमार यादव
- B) विराट कोहली
- C) ईशान किशन
- D) केएल राहुल

सही उत्तर: B

भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली हाल ही में केरल में श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के तीसरे और अंतिम वनडे के दौरान एकदिवसीय क्रिकेट के इतिहास में पांचवें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए, उन्होंने श्रीलंका के दिग्गज महेला जयवर्धने को पछाड़कर शीर्ष पांच में प्रवेश किया।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 24 जनवरी 2023

प्रश्न-9

निम्नलिखित में से कौन सीमा सड़क संगठन (BRO) में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं?

- A) अवनी चतुर्वेदी
- B) रानी दीक्षित
- C) शिव चौहान
- D) सुरभि जखमोला

सही उत्तर: D

भारतीय सेना की 117 इंजीनियर रेजिमेंट की कैप्टन सुरभि जखमोला सीमा सड़क संगठन (BRO) में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली देश की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। BROके अधिकारियों के अनुसार, महिला अधिकारी को प्रोजेक्ट दंतक के तहत कार्रवाई को लागू करने के लिए भूटान भेजा जाएगा।

प्रश्न-10

_____ द्वारा "सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट" नामक एक रिपोर्ट जारी की गई थी।

- A) गोल्डमैन सैक्स
- B) वित्त मंत्रालय
- C) नीति आयोग
- D) ऑक्सफैम इंटरनेशनल

सही उत्तर: D

ऑक्सफैम की हालिया रिपोर्ट 'सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट' से खुलासा हुआ है कि भारत में सबसे अमीर एक प्रतिशत लोगों के पास अब देश की कुल संपत्ति का 40 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है, जबकि निचले आधे लोगों के पास कुल संपत्ति का सिर्फ 3 प्रतिशत हिस्सा है।